

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 22—नवम्बर 28, 2014 (अग्रहायण 1, 1936)

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 22—NOVEMBER 28, 2014 (AGRAHAYANA 1, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर 2014

थल सेना विभाग

सं. 263, दिनांक 5 नवम्बर 2014—थलसेना अनुदेश 37/78 व उसमें जारी संशोधन के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष
निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थायी कमीशन)

मेजर से ले0 कर्नल के पद पर

क्रम सं.	निजी संख्या	पद	नाम	टिप्पणी
क	डी आर-10591ए	मेजर	(सुश्री) पूनम प्रकाश	16.11.13

कैप्टन से मेजर के पद पर

क्रम सं.	निजी संख्या	पद	नाम	टिप्पणी
क	डी आर-10675एन	कप्तान	विशाल कुलकर्णी	05.07.13
ख	डी आर-10691एल	कप्तान	ललित जंजानी	26.04.14

थलसेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:-

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

मेजर से ले0 कर्नल के पद पर

क्रम सं.	निजी संख्या	पद	नाम	टिप्पणी
क	डी एस -12064एक्स	मेजर	(सुश्री) गायत्री खरबन्दा	16-10-13
ख	डी एस -12077पी	मेजर	(सुश्री) सोनिया चेरियन	24-02-14

कैप्टन से मेजर के पद पर

क्रम सं.	निजी संख्या	पद	नाम	टिप्पणी
क	डीएस-12459वाई	कप्तान	अर्णव मुखर्जी	29.09.13
ख	डीएस-12474एन	कप्तान	वरुण चौधरी	02.01.14
ग	डीएस-12479एम	कप्तान	(सुश्री) प्रीति कौर	02.01.14
घ	डीएस-12370एम	कप्तान	सौरव कुमार	05.03.14
ड.	डीएस-12372एक्स	कप्तान	दिनेश बंसल	23.04.14
च	डीएस-12374एच	कप्तान	आदित्य बजाज	28.04.14

एच एस संधू
ब्रिगेडियर
डीडीजीडीएस (पी)

सेना शाखा

सं. 264, दिनांक 7 नवम्बर 2014—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं:-

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

लै0 कर्नल बनाया जाता है

मेजर तरुण हुरीआ	टीए-42405	(इन्जीनियर टीए)	04 जनवरी 2014
-----------------	-----------	-----------------	---------------

मेजर बनाया जाता है

कैप्टन एच एस राठौर	(टीए-42664)	इन्फैन्ट्री	12 अप्रैल 2014
--------------------	-------------	-------------	----------------

भारत भूषण जोशी
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 265, दिनांक 10 नवम्बर 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :—

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

जाट रेजिमेन्ट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार	होशियार सिंह	(जेसी-490166 एन)	01 फरवरी 2012
नायब सूबेदार	कोमल सिंह	(जेसी-490197 एन)	01 फरवरी 2012
नायब सूबेदार	समर पाल	(जेसी-490265 डब्ल्यू)	01 फरवरी 2012
नायब सूबेदार	सॉवरमल देवान्दा	(जेसी-490268 के)	19 फरवरी 2012*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार	मनीराम	(जेसी-490309 एच)	01 फरवरी 2012
नायब सूबेदार	शिवपाल सिंह	(जेसी-490399 पी)	15 फरवरी 2012*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार	सुखबीर	(जेसी-490413 डब्ल्यू)	01 फरवरी 2012
नायब सूबेदार	सुखबीर सिंह	(जेसी-490432 एफ)	30 जुलाई 2012*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार	वेदवीर सिंह	(जेसी-490462 वाई)	01 फरवरी 2012
नायब सूबेदार	नारायण सिंह चौहान	(जेसी-490596 एक्स)	03 मार्च 2012*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार	राम निवास	(जेसी-490227 ए)	01 मार्च 2012
नायब सूबेदार	रामस्वरूप महला	(जेसी-490211 पी)	01 मार्च 2012
नायब सूबेदार	शिशुपाल	(जेसी-490254 के)	01 मार्च 2012
नायब सूबेदार	रवीन्द्र सिंह पंवार	(जेसी-490255 एम)	01 मार्च 2012
नायब सूबेदार	ऋषिपाल सिंह	(जेसी-490283 वाई)	01 मार्च 2012
नायब सूबेदार	ऋषिपाल सिंह	(जेसी-490317 एफ)	12 मार्च 2012*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार	नबाब सिंह	(जेसी-490366 के)	09 अप्रैल 2012*
--------------	-----------	------------------	-----------------

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार	सवरन सिंह	(जेसी-490407 एच)	01 मार्च 2012
नायब सूबेदार	कश्मीर सिंह	(जेसी-490408 एल)	01 मार्च 2012
नायब सूबेदार	राजेश कुमार	(जेसी-490418 पी)	01 मार्च 2012
नायब सूबेदार	विशम्भर सिंह	(जेसी-490437 ए)	01 मार्च 2012
नायब सूबेदार	हरी सिंह	(जेसी-490444 डब्ल्यू)	27 मार्च 2012*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार	प्रेम सिंह	(जेसी-490545 के)	10 मार्च 2012
नायब सूबेदार	आजाद सिंह	(जेसी-490069 डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2012
नायब सूबेदार	ताराचन्द	(जेसी-490071 एन)	01 अप्रैल 2012
नायब सूबेदार	संजीव कुमार	(जेसी-490319 एम)	12 जून 2012*
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	हनुमान सिंह	(जेसी-490481 के)	17 जून 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	हरसुखराम भंवरीया	(जेसी-490602 ए)	12 मार्च 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	भंवरलाल	(जेसी-490603 एच)	22 मई 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	सुबेसिंह कुन्तल	(जेसी-490213 ए)	01 मई 2012
नायब सूबेदार	जितेन्द्र सिंह	(जेसी-490321 के)	01 मई 2012
नायब सूबेदार	रमेश कुमार	(जेसी-490456 एल)	04 जून 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2012 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	सत्यवान	(जेसी-490466 पी)	07 जुलाई 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2012 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	नरेन्द्र कुमार	(जेसी-490474 एन)	14 दिसम्बर 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2012 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	रघुबीर सिंह	(जेसी-490242 पी)	01 जून 2012
नायब सूबेदार	निम्बा राम	(जेसी-490243 एक्स)	01 जून 2012
नायब सूबेदार	वेदपाल	(जेसी-490252 वाई)	01 जून 2012
नायब सूबेदार	हवाई सिंह	(जेसी-490296 डब्ल्यू)	09 जून 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	हरीबक्स सिंह	(जेसी-490290 पी)	01 जून 2012
नायब सूबेदार	सतेन्द्र कुमार चौहान	(जेसी-490322 एम)	01 जून 2012
नायब सूबेदार	ऋषिपाल	(जेसी-490425 एल)	01 जून 2012
नायब सूबेदार	राम नारायण जाट	(जेसी-490445 वाई)	26 जून 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	महेन्द्र सिंह	(जेसी-490463 एफ)	05 अक्टूबर 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	सतीश कुमार	(जेसी-490499 ए)	01 जून 2012
नायब सूबेदार	घनश्याम सिंह पंवार	(जेसी-490530 एफ)	01 जून 2012

नायब सूबेदार	बीरपाल सिंह] सेना मैडल	(जेसी-490558 एफ)	04 अगस्त 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	जय प्रकाश	(जेसी-490253 एफ)	21 जुलाई 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 जून 2012 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	पेमाराज	(जेसी-490320 एफ)	14 जुलाई 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 जून 2012 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	जय करण सिंह	(जेसी-490365 एफ)	01 दिसम्बर 2010
नायब सूबेदार	अशोक कुमार	(जेसी-490367 एम)	04 जुलाई 2011*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	दलीप सिंह	(जेसी-490179 एल)	01 सितम्बर 2011
नायब सूबेदार	हिम्मत सिंह चाहर	(जेसी-490250 एन)	01 सितम्बर 2011
नायब सूबेदार	सुरेन्द्र सिंह	(जेसी-490266 वाई)	01 सितम्बर 2011
नायब सूबेदार	पवन कुमार	(जेसी-490370 एम)	04 सितम्बर 2011*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	दीवान सिंह वर्मा	(जेसी-490392 एल)	01 सितम्बर 2011
नायब सूबेदार	भरत सिंह	(जेसी-490267 एफ)	09 सितम्बर 2011*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 सितम्बर 2011 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	रनवीर सिंह	(जेसी-490305 एम)	01 अक्टूबर 2011
नायब सूबेदार	खेता राम जाट	(जेसी-490435 पी)	01 अक्टूबर 2011
नायब सूबेदार	पातीराम	(जेसी-490473 एल)	01 अक्टूबर 2011
नायब सूबेदार	जगदीश सिंह	(जेसी-490251 डब्ल्यू)	11 नवम्बर 2011*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 अक्टूबर 2011 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	किशना राम	(जेसी-490185 वाई)	01 नवम्बर 2011
नायब सूबेदार	राहुल सिंह	(जेसी-490186 एफ)	01 नवम्बर 2011
नायब सूबेदार	राम चन्द्र	(जेसी-490170 डब्ल्यू)	01 नवम्बर 2011
नायब सूबेदार	जयवीर महला	(जेसी-490222 एफ)	02 दिसम्बर 2011*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	सेवा सिंह	(जेसी-490182 एल)	01 नवम्बर 2011
नायब सूबेदार	जोगेन्द्र सिंह	(जेसी-490410 एच)	01 नवम्बर 2011
नायब सूबेदार	रामबीर सिंह	(जेसी-490146 ए)	01 दिसम्बर 2011
नायब सूबेदार	शीश पाल सिंह	(जेसी-490240 के)	15 मई 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	विनोद कुमार	(जेसी-490241 एम)	01 दिसम्बर 2011
नायब सूबेदार	भगवान सिंह	(जेसी-490282 डब्ल्यू)	01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार	रविन्द्र सिंह	(जेसी-490295 एन)	14 दिसम्बर 2011*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	सतीश कुमार	(जेसी-490378 वाई)	01 दिसम्बर 2011
नायब सूबेदार	हरपाल सिंह बुगालिया	(जेसी-490411 एल)	01 दिसम्बर 2011
नायब सूबेदार	दिलबाग सिंह	(जेसी-490203 डब्ल्यू)	13 दिसम्बर 2011*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 दिसम्बर 2011 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	कृष्णवीर सिंह दुहण	(जेसी-490214 एच)	11 जनवरी 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 दिसम्बर 2011 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	हरेन्द्र सिंह खोकर	(जेसी-490204 वाई)	01 जनवरी 2012
नायब सूबेदार	घासी राम ढाका	(जेसी-490215 एल)	12 जनवरी 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	भंवर लाल	(जेसी-490372 एक्स)	02 जनवरी 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	कृष्ण कुमार	(जेसी-490402 के)	05 जनवरी 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	जयवीर सिंह	(जेसी-490429 एफ)	01 जनवरी 2012
नायब सूबेदार	गजराज सिंह	(जेसी-490503 एक्स)	01 जनवरी 2012
नायब सूबेदार	केहर सिंह	(जेसी-490068 एन)	27 मार्च 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 जनवरी 2012 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में			
सिपाही	चन्द्रभान मिश्रा	(सं. 14448323के अब जेसी-490952 एम)	08 जून 2013
रिक्रुट (धर्म शिक्षक)	हरी कृष्ण शर्मा	(सं. 490839 एक्स अब जेसी-490839 एक्स)	24 नवम्बर 2012
रिक्रुट (धर्म शिक्षक)	विनोद कुमार शर्मा	(सं. 490840 एम अब जेसी-490840 एम)	24 नवम्बर 2012
रिक्रुट (धर्म शिक्षक)	हरी प्रकाश शर्मा	(सं. 490841 पी अब जेसी-490841 पी)	24 नवम्बर 2012
नायब सूबेदार के रैंक में			
हवलदार	राजेन्द्र सिंह	(सं. 3186532 वाई अब जेसी-490915 वाई)	04 मार्च 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)			
हवलदार	अर्जुन सिंह	(सं. 3184926 वाई अब जेसी-490916 एफ)	04 मार्च 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी)			
हवलदार	सुमेर सिंह	(सं. 3185927 एन अब जेसी-490917 के)	06 मार्च 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी)			

हवलदार	सूरज भान	(सं. 3184276 डब्ल्यू अब जेसी-490918 एम)	20 फरवरी 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	बनवारी लाल ख्यालिया	(सं. 3183640 एक्स अब जेसी-490919 पी)	01 मार्च 2013
हवलदार	रेखपाल सिंह	(सं. 3186555 ए अब जेसी-490920 के)	18 मार्च 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	सुगना राम	(सं. 3184850 के अब जेसी-490921 एम)	12 मार्च 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	उम्मेद सिंह	(सं. 3184967 एच अब जेसी-490922 पी)	01 अप्रैल 2013
हवलदार लिपिक	बिजय कुमार दास	(सं. 3183727 वाई अब जेसी-490923 एक्स)	30 मार्च 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)			
हवलदार	प्रमोद सिंह	(सं. 3184371 एच अब जेसी-490924 ए)	13 मार्च 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	जयवीर	(सं. 3185028 एम अब जेसी-490925 एच)	01 मार्च 2013
हवलदार	रूप सिंह	(सं. 3185207 एम अब जेसी-490926 एल)	01 मार्च 2013
हवलदार	राजबीर	(सं. 3186763 पी अब जेसी-490927 एन)	16 मार्च 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	राम किशोर डूडी	(सं. 3184769 एक्स अब जेसी-490928 डब्ल्यू)	13 मार्च 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	रतन लाल	(सं. 3185233 एन अब जेसी-490929 वाई)	01 अप्रैल 2013
हवलदार	हरबीर सिंह	(सं. 3183703 पी अब जेसी-490930 एन)	01 अप्रैल 2013
हवलदार	कृष्ण कुमार	(सं. 3185003ए अब जेसी-490931 डब्ल्यू)	06 अप्रैल 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	ओम प्रकाश	(सं. 4075056 एम अब जेसी-490932 वाई)	01 अप्रैल 2013
हवलदार	ईश्वर सिंह, शौर्य चक्र	(सं. 3185156 के अब जेसी-490933 एफ)	01 अप्रैल 2013
हवलदार	मूल चन्द	(सं. 3185250 एन अब जेसी-490934 के)	01 अप्रैल 2013
हवलदार	बीरेन्द्र सिंह	(सं. 3185912 एल अब जेसी-490935 एम)	01 अप्रैल 2013
हवलदार	मनोज कुमार	(सं. 3185960 एल अब जेसी-490936 पी)	01 मई 2013
हवलदार	ओम प्रकाश	(सं. 3185566 ए अब जेसी-490937 एक्स)	01 मई 2013
हवलदार	सत्य प्रकाश	(सं. 3185445 वाई अब जेसी-490938 ए)	01 मई 2013
हवलदार	राजेश	(सं. 4075418 एच अब जेसी-490939 एच)	06 मई 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	धर्म सिंह काशमा	(सं. 3184292 एन अब जेसी-490940 एक्स)	01 मई 2013
हवलदार लिपिक	श्रीहरि प्रधान	(सं. 3183971 वाई अब जेसी-490941 ए)	01 अप्रैल 2013

हवलदार लिपिक	निर्मल सिंह	(सं. 3183974 एम अब जेसी—490942 एच)	01 अप्रैल 2013
हवलदार लिपिक	आन्नद सिंह बुधवार	(सं. 3184017 एन अब जेसी—490943 एल)	01 अप्रैल 2013
हवलदार	जितेन्द्र कुमार	(सं. 3184214 डब्ल्यू अब जेसी—490944 एन)	09 मई 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	राम कुंवार	(सं. 3185227 ए अब जेसी—490945 डब्ल्यू)	09 मई 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	झम्मन सिंह	(सं. 3185266 वाई अब जेसी—490946 वाई)	01 मई 2013
हवलदार	विद्याधर	(सं. 3185639 एफ अब जेसी—490947 एफ)	01 मई 2013
हवलदार	रामेश्वर लाल	(सं. 3183749 एक्स अब जेसी—490948 के)	10 मई 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार लिपिक	महादासु वी एम एस राव	(सं. 3184087 एम अब जेसी—490949 एम)	01 मई 2013
हवलदार लिपिक	उदल सिंह	(सं. 3184117 वाई अब जेसी—490950 एफ)	01 जून 2013
हवलदार	रबेन्द्र सिंह	(सं. 3171804 डब्ल्यू अब जेसी—490951 के)	01 जुलाई 2001
हवलदार	अरविन्द कुमार सिंह	(सं. 3193448 एफ अब जेसी—491028 वाई)	01 जनवरी 2014
हवलदार	बनी सिंह	(सं. 3184495 एक्स अब जेसी—491029 एफ)	01 जनवरी 2014
हवलदार	सुन्दर लाल	(सं. 3185903 के अब जेसी—491030 डब्ल्यू)	06 जनवरी 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	लीला राम	(सं. 3186000 वाई अब जेसी—491031 वाई)	06 जनवरी 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	सही राम	(सं. 3185292 ए अब जेसी—491032 एफ)	01 जनवरी 2014
हवलदार	हितेश सिंह	(सं. 3184816 के अब जेसी—491033 के)	01 जनवरी 2014
हवलदार	वीरी सिंह	(सं. 3184818 पी अब जेसी—491034 एम)	01 जनवरी 2014
हवलदार	जयपाल	(सं. 3185278 एन अब जेसी—491035 पी)	01 जनवरी 2014
हवलदार लिपिक	रंजीत सिंह राजपूत	(सं. 3184752 के अब जेसी—491036 एक्स)	01 जनवरी 2014
हवलदार लिपिक	जितेन्द्र कुमार शुक्ला	(सं. 3184792 एल अब जेसी—491037 ए)	01 जनवरी 2014
हवलदार लिपिक	नवल किशोर	(सं. 3184529 ए अब जेसी—491038 एच)	01 जनवरी 2014
हवलदार लिपिक	कृष्ण कुमार	(सं. 3184842 एल अब जेसी—491039 एल)	14 जनवरी 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	कुलदीप सिंह लमोरिया	(सं. 3186594 वाई अब जेसी—491040 ए)	21 जनवरी 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	बिजेन्द्र सिंह	(सं. 3186714 एम अब जेसी—491041 एच)	21 जनवरी 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)			

हवलदार	चन्दन पाल सिंह	(सं. 3186813 पी अब जेसी—491042 एल)	27 जनवरी 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	रोहिताश्व कुमार	(सं. 3185636 एन अब जेसी—491043 एन)	13 फरवरी 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	सुशील कुमार	(सं. 3185809 ए अब जेसी—491044 डब्ल्यू)	06 फरवरी 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	सतवीर सिंह	(सं. 3185722 वाई अब जेसी—491045 वाई)	20 फरवरी 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	जसबीर सिंह	(सं. 3185593 के अब जेसी—491046 एफ)	01 मार्च 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	कमल सिंह	(सं. 3185083 एच अब जेसी—491047 के)	01 फरवरी 2014
हवलदार	राज कुमार	(सं. 3186025 एल अब जेसी—491048 एम)	01 फरवरी 2014
हवलदार	देवेन्द्र सिंह	(सं. 3187846 एम अब जेसी—491049 पी)	01 फरवरी 2014
हवलदार	सतवीर	(सं. 3186178 पी अब जेसी—491050 के)	01 फरवरी 2014
हवलदार	हरदेव सिंह	(सं. 3185610 वाई अब जेसी—491051 एम)	20 फरवरी 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 फरवरी 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	होशियार सिंह	(सं. 3186016 के अब जेसी—491052 पी)	05 मार्च 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	हरबिंदर सिंह पँवार	(सं. 3185587 डब्ल्यू अब जेसी—491053 एक्स)	01 मार्च 2014
हवलदार लिपिक	राजेन्द्र सिंह	(सं. 3184843 एन अब जेसी—491054 ए)	13 जनवरी 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार लिपिक	गुमान सिंह गुर्जर	(सं. 3184861 डब्ल्यू अब जेसी—491055 एच)	15 जनवरी 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार लिपिक	योगेन्द्र मणि त्रिपाठी	(सं. 3184894 एफ अब जेसी—491056 एल)	01 फरवरी 2014
हवलदार लिपिक	गणेश बहादुर	(सं. 3185166 एन अब जेसी—491057 एन)	01 फरवरी 2014
हवलदार लिपिक	लिखमा राम	(सं. 3185435 पी अब जेसी—491058 डब्ल्यू)	01 मार्च 2014
हवलदार लिपिक	वीरेन्द्र सिंह वर्मा	(सं. 3185921 एम अब जेसी—491059 वाई)	01 मार्च 2014
हवलदार लिपिक	राजेश कुमार सिन्धु	(सं. 3186870 डब्ल्यू अब जेसी—491060 एन)	01 मार्च 2014
हवलदार लिपिक	नरेन्द्र लाल	(सं. 3187026 ए अब जेसी—491061 डब्ल्यू)	01 मार्च 2014
हवलदार लिपिक	सुनहरा सिंह	(सं. 3187034 वाई अब जेसी—491062 वाई)	01 मार्च 2014
हवलदार लिपिक	जिले सिंह	(सं. 3187038 पी अब जेसी—491063 एफ)	01 मार्च 2014
हवलदार लिपिक	सत्येन्द्र सिंह	(सं. 3187080 एन अब जेसी—491064 के)	01 मार्च 2014
हवलदार लिपिक	गंगा सिंह	(सं. 3187081 डब्ल्यू अब जेसी—491065 एम)	25 मार्च 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी)			

हवलदार लिपिक	बिरमा राम	(सं. 3187245 एफ अब जेसी—491066 पी)	01 मार्च 2014
हवलदार लिपिक	सुखदेव सिंह डागुर	(सं. 3187275 वाई अब जेसी—491067 एक्स)	01 मार्च 2014
हवलदार लिपिक	सुभाष चन्द	(सं. 3188091 एम अब जेसी—491068 ए)	01 मार्च 2014
हवलदार लिपिक	त्रिलोक सिंह	(सं. 2890415 एफ अब जेसी—491069 एच)	01 मार्च 2014
हवलदार	सुभाष सिंह	(सं. 3184646 एल अब जेसी—490953 पी)	15 जून 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 मई 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	हीरा सिंह बंगरवा	(सं. 3185716 एल अब जेसी—490954 एक्स)	15 जून 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 मई 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	दलशेर सिंह	(सं. 3184235 एम अब जेसी—490955 ए)	07 जून 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	राजबीर सिंह	(सं. 3185995 एफ अब जेसी—490956 एच)	15 जून 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	राजेन्द्र सिंह गुर्जर	(सं. 3184874 एन अब जेसी—490957 एल)	01 जून 2013
हवलदार	मदन लाल यादव	(सं. 3185092 के अब जेसी—490958 एन)	01 जून 2013
हवलदार	दाना राम सेवदा	(सं. 3184780 डब्ल्यू अब जेसी—490959 डब्ल्यू)	01 जुलाई 2013
हवलदार	राजेन्द्र सिंह	(सं. 3185342 ए अब जेसी—490960 एल)	01 जुलाई 2013
हवलदार लिपिक	सुनील तोमर	(सं. 3184166 एफ अब जेसी—490961 एन)	01 जुलाई 2013
हवलदार	दिनेश चन्द्र	(सं. 3185404 पी अब जेसी—490962 डब्ल्यू)	10 जुलाई 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	गजेन्द्र सिंह	(सं. 3185548 एक्स अब जेसी—490963 वाई)	12 जुलाई 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	निरन्दन सिंह	(सं. 3187186 ए अब जेसी—490964 एफ)	01 जुलाई 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जून 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	पवन कुमार	(सं. 3187456 के अब जेसी—490965 के)	01 जुलाई 2013
हवलदार	संत राम	(सं. 3186005 एक्स अब जेसी—490966 एम)	01 अगस्त 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	भारमल	(सं. 3184300 एफ अब जेसी—490967 पी)	10 जुलाई 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	बीरपाल सिंह	(सं. 3183559 एल अब जेसी—490968 एक्स)	01 अगस्त 2013
हवलदार	गजे सिंह	(सं. 3185599 एल अब जेसी—490969 ए)	01 अगस्त 2013
हवलदार	चन्द्र पाल	(सं. 3186074 एन अब जेसी—490970 पी)	17 अगस्त 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	सुखा राम खुरखुरिया	(सं. 3186128 के अब जेसी—490971 एक्स)	01 अगस्त 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	सौवरमल खोखर	(सं. 3186282एच अब जेसी—490972ए)	01 अगस्त 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	संजय कुमार	(सं. 3203061 पी अब जेसी—490973 एच)	14 अगस्त 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 जुलाई 2013 से दी जायेगी)			

हवलदार	महेन्द्र सिंह	(सं. 3185256 पी अब जेसी—490974 एल)	20 अगस्त 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	मनोहर लाल	(सं. 3184067 वाई अब जेसी—490975 एन)	01 अगस्त 2013
हवलदार	सुभाष चन्द्र	(सं. 3185102 एच अब जेसी—490976 डब्ल्यू)	04 अगस्त 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	सुभाष चन्द्र	(सं. 3185246 एल अब जेसी—490977 वाई)	08 अगस्त 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	सुरेश कुमार	(सं. 3186328 ए अब जेसी—490978 एफ)	01 अगस्त 2013
हवलदार	अशोक कुमार	(सं. 3186399 एफ अब जेसी—490979 के)	22 अगस्त 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	रणधीर सिंह बुडानिया	(सं. 3186427 एच अब जेसी—490980 वाई)	01 अगस्त 2013
हवलदार	अजीत सिंह	(सं. 3185142 के अब जेसी—490981 एफ)	01 सितम्बर 2013
हवलदार	सुभाष	(सं. 3185255 एम अब जेसी—490982 के)	02 सितम्बर 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	देवेन्द्र कुमार	(सं. 3186475 एच अब जेसी—490983 एम)	01 सितम्बर 2013
हवलदार लिपिक	राजेन्द्र सिंह लाम्बा	(सं. 3184220 के अब जेसी—490984 पी)	01 अगस्त 2013
हवलदार	अमोल कुमार	(सं. 3196331 एन अब जेसी—490985 एक्स)	01 अगस्त 2013
हवलदार	दीवान सिंह	(सं. 3185946 वाई अब जेसी—490986 ए)	12 सितम्बर 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अगस्त 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	परमेश्वर सिंह	(सं. 3184617 डब्ल्यू अब जेसी—490987 एच)	01 सितम्बर 2013
हवलदार	सुनील कुमार	(सं. 3185007 डब्ल्यू अब जेसी—490988 एल)	03 सितम्बर 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	गजानन्द	(सं. 4075818 पी अब जेसी—490989 एन)	01 सितम्बर 2013
हवलदार	बीरेन्द्र सिंह	(सं. 3185080 पी अब जेसी—490990 एच)	01 सितम्बर 2013
हवलदार	रामूराम	(सं. 3186056 एल अब जेसी—490991 एल)	01 सितम्बर 2013
हवलदार	राजवीर सिंह रैया	(सं. 3185788 पी अब जेसी—490992 एन)	01 अक्टूबर 2013
हवलदार	जयपाल सिंह	(सं. 3184673 पी अब जेसी—490993 डब्ल्यू)	01 अक्टूबर 2013
हवलदार	रतनलाल डूडी	(सं. 3185313 एल अब जेसी—490994 वाई)	01 अक्टूबर 2013
हवलदार	हरीओम सिंह	(सं. 3199371 ए अब जेसी—490995 एफ)	03 अक्टूबर 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	महाबीर सिंह	(सं. 3186221 एल अब जेसी—490996 के)	01 अक्टूबर 2013
हवलदार	नेम सिंह	(सं. 3185119 डब्ल्यू अब जेसी—490997 एम)	01 अक्टूबर 2013
हवलदार	राजेश कुमार सिंह	(सं. 3186562 डब्ल्यू अब जेसी—490998 पी)	01 अक्टूबर 2013

हवलदार लिपिक	हुकम सिंह	(सं. 3184334 पी अब जेसी-490999 एक्स)	01 अक्टूबर 2013
हवलदार लिपिक	नन्दलाल	(सं. 3184347 एम अब जेसी-491000 वाई)	01 अक्टूबर 2013
हवलदार लिपिक	राम कुमार नादर	(सं. 3184360 डब्ल्यू अब जेसी-491001 एफ)	01 अक्टूबर 2013
हवलदार	धर्म सिंह पँघाल	(सं. 3187554 के अब जेसी-491002 के)	16 अक्टूबर 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	विजय कुमार	(सं. 3185289 ए अब जेसी-491003 एम)	15 नवम्बर 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 सितम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	विक्रम सिंह वर्मा	(सं. 3185198 डब्ल्यू अब जेसी-491004 पी)	19 नवम्बर 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	मनोज कुमार	(सं. 3184428 एम अब जेसी-491005 एक्स)	29 नवम्बर 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	जगदीश कुमार	(सं. 3184441 डब्ल्यू अब जेसी-491006 ए)	29 नवम्बर 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	महेन्द्र कुमार मील	(सं. 3184451 ए अब जेसी-491007 एच)	29 नवम्बर 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	दाना राम	(सं. 3184481 एक्स अब जेसी-491008 एल)	29 नवम्बर 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	मुकेश, एस एम	(सं. 3185907 ए अब जेसी-491009 एन)	01 नवम्बर 2013
हवलदार	इन्द्रराज सिंह	(सं. 3184748 एफ अब जेसी-491010 एच)	01 नवम्बर 2013
हवलदार	रामबीर सिंह मलिक	(सं. 4076061 के अब जेसी-491011 एल)	20 दिसम्बर 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	अशोक कुमार	(सं. 3189039 डब्ल्यू अब जेसी-491012 एन)	01 नवम्बर 2013
हवलदार	दया राम	(सं. 3184340 एच अब जेसी-491013 डब्ल्यू)	01 दिसम्बर 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	ओम प्रकाश महला	(सं. 3185668 डब्ल्यू अब जेसी-491014 वाई)	01 नवम्बर 2013
हवलदार	रूप सिंह	(सं. 3185702 एल अब जेसी-491015 एफ)	01 नवम्बर 2013
हवलदार	राज कुमार	(सं. 3184666 वाई अब जेसी-491016 के)	01 दिसम्बर 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)			
हवलदार	जगदीश प्रसाद	(सं. 3187519 एफ अब जेसी-491017 एम)	01 नवम्बर 2013
हवलदार	सुख लाल गोरा	(सं. 3187538 एम अब जेसी-491018 पी)	01 नवम्बर 2013
हवलदार	अजीत सिंह	(सं. 3185290 पी अब जेसी-491019 एक्स)	01 दिसम्बर 2013
हवलदार	रनवीर सिंह	(सं. 3185151 एल अब जेसी-491020 एम)	01 दिसम्बर 2013

हवलदार	हंसराज	(सं. 3184978 पी अब जेसी—491021 पी)	01 दिसम्बर 2013
हवलदार	शुभ करन	(सं. 3186187 डब्ल्यू अब जेसी—491022 एक्स)	01 दिसम्बर 2013
हवलदार	फतेह सिंह	(सं. 3185506 एल अब जेसी—491023 ए)	01 दिसम्बर 2013
हवलदार	राजेश कुमार राहड	(सं. 3186176 के अब जेसी—491024 एच)	01 दिसम्बर 2013
हवलदार लिपिक	रमेश साईकीया	(सं. 3184525 के अब जेसी—491025 एल)	01 दिसम्बर 2013
हवलदार लिपिक	देवेन्द्र सिंह	(सं. 3184565 एल अब जेसी—491026 एन)	01 दिसम्बर 2013
हवलदार लिपिक	लच्छी राम चाहर	(सं. 3184585 वाई अब जेसी—491027 डब्ल्यू)	01 दिसम्बर 2013

वी एन रविन्द्रन
अवर सचिव

सं. 266, दिनांक 11 नवम्बर 2014—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

सेना डाक सेवा कोर

नायब सूबेदार/लिपिक (एस डी) से सूबेदार/लिपिक (एसडी)				
1.	नायब सूबेदार/लिपिक (एसडी)	कृष्ण कुमार	(जे सी—834911 के)	05 अगस्त 2013*
*(सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 13 से दी जायेगी)				
2.	नायब सूबेदार/लिपिक (एसडी)	खुशाल सिंह दानू	(जे सी—834913 पी)	12 अगस्त 2013*
*(सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 13 से दी जायेगी)				
3.	नायब सूबेदार/लिपिक (एसडी)	हरेंद्र पाल सिंह	(जे सी—834943 एम)	19 अगस्त 2013*
4.	नायब सूबेदार/लिपिक (एसडी)	तरसीम लाल	(जे सी—834944 पी)	04 सितम्बर 2013*
*(सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 13 से दी जायेगी)				
5.	नायब सूबेदार/लिपिक (एसडी)	राजेंद्र कुमार	(जे सी—834945 एक्स)	01 अक्टूबर 2013
6.	नायब सूबेदार/लिपिक (एसडी)	बद्री प्रसाद	(जे सी—834946 ए)	01 अक्टूबर 2013
7.	नायब सूबेदार/लिपिक (एसडी)	रविन्द्र सिंह	(जे सी—834947 एच)	07 अक्टूबर 2013*
8.	नायब सूबेदार/लिपिक (एसडी)	रतन सिंह वर्मा	(जे सी—834948 एल)	17 अक्टूबर 2013*
*(सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 13 से दी जायेगी)				
9.	नायब सूबेदार/लिपिक (एसडी)	प्रेम शंकर सिंह	(जे सी—834950 एच)	01 नवम्बर 2013
10.	नायब सूबेदार/लिपिक (एसडी)	प्रदीप सिंह	(जे सी—834951 एल)	06 नवम्बर 2013*
* (सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 13 से दी जायेगी)				

वारंट आफिसर से नायब सूबेदार

1.	डब्ल्यूओ	विपिन प्रसाद भट्ट	(सं. 8376551 पी)	अब जे सी	835134	वाई)	13 मार्च 14*
2.	डब्ल्यूओ	गुरप्रीत सिंह	(सं. 8375767 के)	अब जे सी	835135	एफ)	27 फरवरी 14*

3.	डब्ल्यूओ	गिरीश जोशी	(सं. 8375820	के	अब जे सी	835136	के)	21 फरवरी 14*
4.	डब्ल्यूओ	एल श्रीनिवास राव	(सं. 8376097	ए	अब जे सी	835137	एम)	24 फरवरी 14*
5.	डब्ल्यूओ	मोनू कुमार	(सं. 8376259	ए	अब जे सी	835138	पी)	03 मार्च 14*
6.	डब्ल्यूओ	सुनीश गुलेरिया	(सं. 8376266	डब्ल्यू	अब जे सी	835139	एक्स)	12 मार्च 14*
7.	डब्ल्यूओ	विनोद कुमार	(सं. 8376269	के	अब जे सी	835140	एम)	25 फरवरी 14*
8.	डब्ल्यूओ	संजीव कुमार	(सं. 8376270	वाई	अब जे सी	835141	पी)	26 फरवरी 14*
9.	डब्ल्यूओ	विकास गुलेटिया	(सं. 8376271	एफ	अब जे सी	835142	एक्स)	19 मार्च 14*
10.	डब्ल्यूओ	रमेश चन्द	(सं. 8376274	पी	अब जे सी	835143	ए)	08 मार्च 14*
11.	डब्ल्यूओ	जाधव अभय कुमार एच राव	(सं. 8376292	एक्स	अब जे सी	835144	एच)	10 अप्रैल 14*
12.	डब्ल्यूओ	मनोज कुमार	(सं. 8376303	वाई	अब जे सी	835145	एल)	06 मार्च 14*
13.	डब्ल्यूओ	प्रिन्स प्रकाश	(सं. 8376310	पी	अब जे सी	835146	एन)	18 मार्च 14*
14.	डब्ल्यूओ	योगेन्द्र सिंह	(सं. 8376312	ए	अब जे सी	835147	डब्ल्यू)	02 अप्रैल 14*
15.	डब्ल्यूओ	चक्रपाणि टी एस	(सं. 8376335	एफ	अब जे सी	835148	वाई)	20 मई 14*
* (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में ज्येष्ठता 13 सितम्बर 13 से दी जायेगी)								
16.	डब्ल्यूओ	प्रेम सिंह	(सं. 8373965	डब्ल्यू	अब जे सी	835149	एफ)	28 फरवरी 14*
17.	डब्ल्यूओ	एन बाबा किशोर	(सं. 8374249	एक्स	अब जे सी	835150	डब्ल्यू)	12 अप्रैल 14*
* (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में ज्येष्ठता 21 सितम्बर 13 से दी जायेगी)								
18.	डब्ल्यूओ	जशवीर सिंह	(सं. 8374680	डब्ल्यू	अब जे सी	835151	वाई)	24 फरवरी 14*
19.	डब्ल्यूओ	आलोक कुमार	(सं. 8375627	एक्स	अब जे सी	835152	एफ)	24 मार्च 14*
20.	डब्ल्यूओ	ई सरय बाबू	(सं. 8375694	एच	अब जे सी	835153	के)	24 फरवरी 14*
21.	डब्ल्यूओ	टी आर विजेशराज	(सं. 8375732	एन	अब जे सी	835154	एम)	28 फरवरी 14*
22.	डब्ल्यूओ	अमन मेहता	(सं. 8375770	के	अब जे सी	835155	पी)	21 फरवरी 14*
* (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 13 से दी जायेगी)								

ऋषिपाल सिंह नेगी
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 267, दिनांक 12 नवम्बर 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

शुद्धि—पत्र

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

जाट रेजिमेन्ट

भारत के राजपत्र सं. 331 दिनांक 07 मई 2009 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 23 दिनांक 06 जून 2009 के शीर्षक नियमित सेना उपशीर्षक इन्फैन्ट्री और जाट रेजिमेन्ट के नीचे निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :

नायब सूबेदार के रैंक में

के स्थान पर

हवलदार जय करण सिंह (सं. 3177350 के अब जेसी—490365 एफ) 08 नवम्बर 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)

पढ़ा जाए

हवलदार जय करण सिंह (सं. 3177350 के अब जेसी—490365 एफ) 08 नवम्बर 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

वी एन रविन्द्रन
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 22nd November 2014

ARMY BRANCH

No. 263, dated 5th November 2014—The President is pleased to make the following promotion (PC) under AI 37/78, as amended:—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

PERMANENT COMMISSION

Maj to be Lt Col (& Equiv)

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
DR-10591A	Major	(Ms) Poonam Prakash	16-11-13

CAPT TO BE MAJOR

Pers No	Rank	Name	Dt of prom to the rank of Maj
DR-10675N	Capt	Vishal Kulkarni	05-07-2013
DR-10691L	Capt	Lalit Janjani	26-04-2014

The President is pleased to make the following promotion under AI 15/79 as amended :-

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

SHORT SERVICE COMMISSION

MAJOR TO BE LT COL

Personal No	Rank	Name	Dt of Prom to the rank of Lt Col
DS-12064X	Maj	(Ms) Gayatri Kharbanda	16-10-2013
DS-12077P	Maj	(Ms) Sonia Cherian	24-02-2014

CAPT TO BE MAJOR

Pers No	Rank	Name	Dt of prom to the rank of Maj
DS-12459Y	Capt	Arnav Mukherjee	29-09-13
DS-12474N	Capt	Varun Choudhary	02-01-14
DS-12479M	Capt	(Ms) Preeti Kaur	25-01-14
DS-12370M	Capt	Saurav Kumar	05-03-14
DS-12372X	Capt	Dinesh Bansal	23-04-14
DS-12374H	Capt	Aditya Bajaj	28-04-14

HS SANDHU
Brig
Dy DGDS (P)

ARMY BRANCH

No. 264, dated 7th November 2014—The President is pleased to make the following promotion:—

TERRITORIAL ARMY
TERRITORIAL COMMISSION

TO BE LT COL

Maj Tarun Huria	TA-42405	(Engineer TA)	04 Jan 2014
-----------------	----------	---------------	-------------

TO BE MAJ

Capt HS Rathore	TA-42664	(Infantry)	12 Apr 2014
-----------------	----------	------------	-------------

B. B. JOSHI
Under Secretary

ARMY BRANCH

No. 265, dated 10th November 2014—The President is pleased to make the following promotions:-

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE JAT REGIMENT

To be Sub

Nb Sub	Hoshiar Singh	(JC-490166N)	1 st Feb 2012
Nb Sub	Komal Singh	(JC-490197N)	1 st Feb 2012
Nb Sub	Samar Pal	(JC-490265W)	1 st Feb 2012
Nb Sub	Sanwarmal Devanda	(JC-490268K)	19 th Feb 2012*

*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Feb 2012 without effect on pay & allowances.

Nb Sub	Mani Ram	(JC-490309H)	1 st Feb 2012
Nb Sub	Shiv Pal Singh	(JC-490399P)	15 th Feb 2012*

*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Feb 2012 without effect on pay & allowances.

Nb Sub	Sukhbir	(JC-490413W)	1 st Feb 2012
Nb Sub	Sukhbir Singh	(JC-490432F)	30 th July 2012*

*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Feb 2012 without effect on pay & allowances.

Nb Sub	Vedvir Singh	(JC-490462Y)	1 st Feb 2012
Nb Sub	Narayan Singh Chouhan	(JC-490596X)	3 rd Mar 2012*

*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Feb 2012 without effect on pay & allowances.

Nb Sub	Ram Niwas	(JC-490227A)	1 st Mar 2012
Nb Sub	Ram Swaroop Mahala	(JC-490211P)	1 st Mar 2012
Nb Sub	Shishu Pal	(JC-490254K)	1 st Mar 2012
Nb Sub	Ravindra Singh Panwar	(JC-490255M)	1 st Mar 2012
Nb Sub	Rishipal Singh	(JC-490283Y)	1 st Mar 2012
Nb Sub	Rishipal Singh	(JC-490317F)	12 th Mar 2012*

*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 2012 without effect on pay & allowances.

Nb Sub	Nabab Singh	(JC-490366K)	9 th Apr 2012*
--------	-------------	--------------	---------------------------

*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 2012 without effect on pay & allowances.

Nb Sub	Swaran Singh	(JC-490407H)	1 st Mar 2012
Nb Sub	Kashmir Singh	(JC-490408L)	1 st Mar 2012
Nb Sub	Rajesh Kumar	(JC-490418P)	1 st Mar 2012
Nb Sub	Viswambhar Singh	(JC-490437A)	1 st Mar 2012
Nb Sub	Hari Singh	(JC-490444W)	27 th Mar 2012*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 2012 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Prem Singh	(JC-490545K)	10 th Mar 2012
Nb Sub	Azad Singh	(JC-490069W)	1 st Apr 2012
Nb Sub	Tara Chand	(JC-490071N)	1 st Apr 2012
Nb Sub	Sanjiv Kumar	(JC-490319M)	12 th June 2012*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 2012 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Hanuman Singh	(JC-490481K)	17 th June 2012*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 2012 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Hersukh Ram Bhanweriya	(JC-490602A)	12 th Mar 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 2012 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Bhanwar Lal	(JC-490603H)	22 nd May 2012*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 2012 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Subhay Singh Kuntal	(JC-490213A)	1 st May 2012
Nb Sub	Jitender Singh	(JC-490321K)	1 st May 2012
Nb Sub	Ramesh Kumar	(JC-490456L)	4 th June 2012*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 May 2012 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Sataywan	(JC-490466P)	7 th July 2012*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 May 2012 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Narendra Kumar	(JC-490474N)	14 th Dec 2012*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 May 2012 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Raghubir Singh	(JC-490242P)	1 st June 2012
Nb Sub	Nimba Ram	(JC-490243X)	1 st June 2012
Nb Sub	Ved Pal	(JC-490252Y)	1 st June 2012
Nb Sub	Hawai Singh	(JC-490296W)	9 th June 2012*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 June 2012 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Haribax Singh	(JC-490290P)	1 st June 2012
Nb Sub	Styandra Kumar Chauhan	(JC-490322M)	1 st June 2012
Nb Sub	Rishi Pal	(JC-490425L)	1 st June 2012
Nb Sub	Ram Narayan Jat	(JC-490445Y)	26 th June 2012*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 June 2012 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Mahander Singh	(JC-490463F)	5 th Oct 2012*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 June 2012 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Satish Kumar	(JC-490499A)	1 st June 2012
Nb Sub	Ghan Shyam Singh Panwar	(JC-490530F)	1 st June 2012
Nb Sub	Birpal Singh, SM	(JC-490558F)	4 th Aug 2012*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 June 2012 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Jai Prakash	(JC-490253F)	21 st July 2012*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 21 June 2012 without effect on pay & allowances.			

Nb Sub	Pema Ram	(JC-490320F)	14 th July 2012*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 25 June 2012 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Jai Karan Singh	(JC-490365F)	1 st Dec 2010
Nb Sub	Ashok Kumar	(JC-490367M)	4 th July 2011*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 June 2011 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Dalip Singh	(JC-490179L)	1 st Sep 2011
Nb Sub	Himmat Singh Chahar	(JC-490250N)	1 st Sep 2011
Nb Sub	Surender Singh	(JC-490266Y)	1 st Sep 2011
Nb Sub	Pawan Kumar	(JC-490370M)	4 th Sep 2011*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Sep 2011 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Deevan Singh Verma	(JC-490392L)	1 st Sep 2011
Nb Sub	Bharat Singh	(JC-490267F)	9 th Sep 2011*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 02 Sep 2011 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Ranveer Singh	(JC-490305M)	1 st Oct 2011
Nb Sub	Kheta Ram Jat	(JC-490435P)	1 st Oct 2011
Nb Sub	Pati Ram	(JC-490473L)	1 st Oct 2011
Nb Sub	Jagdish Singh	(JC-490251W)	11 th Nov 2011*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 20 Oct 2011 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Kishana Ram	(JC-490185Y)	1 st Nov 2011
Nb Sub	Rahul Singh	(JC-490186F)	1 st Nov 2011
Nb Sub	Ram Chandra	(JC-490170W)	1 st Nov 2011
Nb Sub	Jaivir Mahala	(JC-490222F)	2 nd Dec 2011*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Nov 2011 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Sewa Singh	(JC-490182L)	1 st Nov 2011
Nb Sub	Jogender Singh	(JC-490410H)	1 st Nov 2011
Nb Sub	Rambir Singh	(JC-490146A)	1 st Dec 2011
Nb Sub	Shisha Pal Singh	(JC-490240K)	15 th May 2012*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Dec 2011 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Vinod Kumar	(JC-490241M)	1 st Dec 2011
Nb Sub	Bhagaban Singh	(JC-490282W)	1 st Dec 2011
Nb Sub	Ravinder Singh	(JC-490295N)	14 th Dec 2011*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Dec 2011 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Satish Kumar	(JC-490378Y)	1 st Dec 2011
Nb Sub	Harpal Singh Bugalia	(JC-490411L)	1 st Dec 2011
Nb Sub	Dilbag Singh	(JC-490203W)	13 th Dec 2011*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 10 Dec 2011 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Kirshanweer Singh Duhoon	(JC-490214H)	11 th Jan 2012*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 25 Dec 2011 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Harendra Singh Khokar	(JC-490204Y)	1 st Jan 2012
Nb Sub	Ghasi Ram Dhaka	(JC-490215L)	12 th Jan 2012*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Jan 2012 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Bhanwar Lal	(JC-490372X)	2 nd Jan 2012*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Jan 2012 without effect on pay & allowances.			

Nb Sub	Krishan Kumar	(JC-490402K)	5 th Jan 2012*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Jan 2012 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Jaiveer Singh	(JC-490429F)	1 st Jan 2012
Nb Sub	Gajraj Singh	(JC-490503X)	1 st Jan 2012
Nb Sub	Kehar Singh	(JC-490068N)	27 th Mar 2012*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 07 Jan 2012 without effect on pay & allowances.			
To be Nb Sub (Religious Teacher)			
Sep	Chandra Bhan Mishra	(No 14448323K now JC-490952M)	8 th June 2013
Rect (RT)	Hari Krishan Sharma	(No 490839X now JC-490839X)	24 th Nov 2012
Rect (RT)	Vinod Kumar Sharma	(No 490840M now JC-490840M)	24 th Nov 2012
Rect (RT)	Hari Prakash Sharma	(No 490841P now JC-490841P)	24 th Nov 2012
To be Nb Sub			
Hav	Rajendra Singh	(No 3186532Y now JC-490915Y)	4 th Mar 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2012 without effect on pay & allowances.			
Hav	Arjun Singh	(No 3184926Y now JC-490916F)	4 th Mar 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 2012 without effect on pay & allowances.			
Hav	Sumer Singh	(No 3185927N now JC-490917K)	6 th Mar 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 2012 without effect on pay & allowances.			
Hav	Suraj Bhan	(No 3184276W now JC-490918M)	20 th Feb 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Banwari Lal Khyalia	(No 3183640X now JC-490919P)	1 st Mar 2013
Hav	Rekh Pal Singh	(No 3186555A now JC-490920K)	18 th Mar 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Sugana Ram	(No 3184850K now JC-490921M)	12 th Mar 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Ummad Singh	(No 3184967H now JC-490922P)	1 st Apr 2013
Hav/Clk	Bijaya Kumar Dash	(No 3183727Y now JC-490923X)	30 th Mar 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2012 without effect on pay & allowances.			
Hav	Parmod Singh	(No 3184371H now JC-490924A)	13 th Mar 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Feb 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Jaivir	(No 3185028M now JC-490925H)	1 st Mar 2013
Hav	Roop Singh	(No 3185207M now JC-490926L)	1 st Mar 2013
Hav	Rajbir	(No 3186763P now JC-490927N)	16 th Mar 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Ram Kishor Dudi	(No 3184769X now JC-490928W)	13 th Mar 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Rattan Lal	(No 3185233N now JC-490929Y)	1 st Apr 2013
Hav	Harbeer Singh	(No 3183703P now JC-490930N)	1 st Apr 2013
Hav	Krishan Kumar	(No 3185003A now JC-490931W)	6 th Apr 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Om Prakash	(No 4075056M now JC-490932Y)	1 st Apr 2013
Hav	Ishwar Singh, SC	(No 3185156K now JC-490933F)	1 st Apr 2013
Hav	Mool Chand	(No 3185250N now JC-490934K)	1 st Apr 2013

Hav	Birender Singh	(No 3185912L now JC-490935M)	1 st Apr 2013
Hav	Manoj Kumar	(No 3185960L now JC-490936P)	1 st May 2013
Hav	Om Parkash	(No 3185566A now JC-490937X)	1 st May 2013
Hav	Satya Prakash	(No 3185445Y now JC-490938A)	1 st May 2013
Hav	Rajesh	(No 4075418H now JC-490939H)	6 th May 2013*

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2013 without effect on pay & allowances.

Hav	Dharam Singh Kashma	(No 3184292N now JC-490940X)	1 st May 2013
Hav Clk	Srihari Pradhan	(No 3183971Y now JC-490941A)	1 st Apr 2013
Hav Clk	Nirmal Singh	(No 3183974M now JC-490942H)	1 st Apr 2013
Hav Clk	Anand Singh Budhwar	(No 3184017N now JC-490943L)	1 st Apr 2013
Hav	Jitandar Kumar	(No 3184214W now JC-490944N)	9 th May 2013*

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2013 without effect on pay & allowances.

Hav	Ram Kunwar	(No 3185227A now JC-490945W)	9 th May 2013*
-----	------------	------------------------------	---------------------------

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2013 without effect on pay & allowances.

Hav	Jhamman Singh	(No 3185266Y now JC-490946Y)	1 st May 2013
Hav	Vidhya Dhar	(No 3185639F now JC-490947F)	1 st May 2013
Hav	Rameshwar Lal	(No 3183749X now JC-490948K)	10 th May 2013*

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2013 without effect on pay & allowances.

Hav Clk	Mahadasu VMS Rao	(No 3184087M now JC-490949M)	1 st May 2013
Hav Clk	Udal Singh	(No 3184117Y now JC-490950F)	1 st June 2013
Hav	Rabendra Singh	(No 3171804W now JC-490951K)	1st July 2001
Hav	Arvind Kumar Singh	(No 3193448F now JC-491028Y)	1 st Jan 2014
Hav	Bani Singh	(No 3184495X now JC-491029F)	1 st Jan 2014
Hav	Sundar Lal	(No 3185903K now JC-491030W)	6 th Jan 2014*

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 2014 without effect on pay & allowances.

Hav	Leela Ram	(No 3186000Y now JC-491031Y)	6 th Jan 2014*
-----	-----------	------------------------------	---------------------------

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 2014 without effect on pay & allowances.

Hav	Sahi Ram	(No 3185292A now JC-491032F)	1 st Jan 2014
Hav	Hitesh Singh	(No 3184816K now JC-491033K)	1 st Jan 2014
Hav	Viri Singh	(No 3184818P now JC-491034M)	1 st Jan 2014
Hav	Jaipal	(No 3185278N now JC-491035P)	1 st Jan 2014
Hav Clk	Ranjit Singh Rajput	(No 3184752K now JC-491036X)	1 st Jan 2014
Hav Clk	Jitandr Kumar Shukla	(No 3184792L now JC-491037A)	1 st Jan 2014
Hav Clk	Nawal Kishore	(No 3184529A now JC-491038H)	1 st Jan 2014
Hav Clk	Krishan Kumar	(No 3184842L now JC-491039L)	14 th Jan 2014*

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 2014 without effect on pay & allowances.

Hav	Kuldeep Singh Lamoria	(No 3186594Y now JC-491040A)	21 st Jan 2014*
-----	-----------------------	------------------------------	----------------------------

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2013 without effect on pay & allowances.

Hav	Bijender Singh	(No 3186714M now JC-491041H)	21 st Jan 2014*
-----	----------------	------------------------------	----------------------------

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2013 without effect on pay & allowances.

Hav	Chandan Pal Singh	(No 3186813P now JC-491042L)	27 th Jan 2014*
-----	-------------------	------------------------------	----------------------------

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2013 without effect on pay & allowances.

Hav	Rohitasv Kumar	(No 3185636N now JC-491043N)	13 th Feb 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Sushil Kumar	(No 3185809A now JC-491044W)	6 th Feb 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 07 Dec 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Satvir Singh	(No 3185722Y now JC-491045Y)	20 th Feb 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 10 Dec 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Jasbir Singh	(No 3185593K now JC-491046F)	1 st Mar 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Kamal Singh	(No 3185083H now JC-491047K)	1 st Feb 2014
Hav	Raj Kumar	(No 3186025L now JC-491048M)	1 st Feb 2014
Hav	Devendra Singh	(No 3187846M now JC-491049P)	1 st Feb 2014
Hav	Satveer	(No 3186178P now JC-491050K)	1 st Feb 2014
Hav	Hardeo Singh	(No 3185610Y now JC-491051M)	20 th Feb 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 04 Feb 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Hoshiar Singh	(No 3186016K now JC-491052P)	5 th Mar 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Harbinder Singh Panwar	(No 3185587W now JC-491053X)	1 st Mar 2014
Hav Clk	Rajender Singh	(No 3184843N now JC-491054A)	13 th Jan 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav Clk	Guman Singh Gurjar	(No 3184861W now JC-491055H)	15 th Jan 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav Clk	Yogendra Mani Tripathi	(No 3184894F now JC-491056L)	1 st Feb 2014
Hav Clk	Ganesh Bahadur	(No 3185166N now JC-491057N)	1 st Feb 2014
Hav Clk	Likhma Ram	(No 3185435P now JC-491058W)	1 st Mar 2014
Hav Clk	Virendra Singh Verma	(No 3185921M now JC-491059Y)	1 st Mar 2014
Hav Clk	Rajesh Kumar Sindhu	(No 3186870W now JC-491060N)	1 st Mar 2014
Hav Clk	Narinder Lal	(No 3187026A now JC-491061W)	1 st Mar 2014
Hav Clk	Sunehra Singh	(No 3187034Y now JC-491062Y)	1 st Mar 2014
Hav Clk	Jile Singh	(No 3187038P now JC-491063F)	1 st Mar 2014
Hav Clk	Satyendra Singh	(No 3187080N now JC-491064K)	1 st Mar 2014
Hav Clk	Ganga Singh	(No 3187081W now JC-491065M)	25 th Mar 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav Clk	Beerma Ram	(No 3187245F now JC-491066P)	1 st Mar 2014
Hav Clk	Sukhdev Singh Dagur	(No 3187275Y now JC-491067X)	1 st Mar 2014
Hav Clk	Subhash Chand	(No 3188091M now JC-491068A)	1 st Mar 2014
Hav Clk	Trilok Singh	(No 2890415F now JC-491069H)	1 st Mar 2014
Hav	Suabhash Singh	(No 3184646L now JC-490953P)	15 th June 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 23 May 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Heera Singh Bangarwa	(No 3185716L now JC-490954X)	15 th June 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 23 May 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Dalsher Singh	(No 3184235M now JC-490955A)	7 th June 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 June 2013 without effect on pay & allowances.			

Hav	Rajbir Singh	(No 3185995F now JC-490956H)	15 th June 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 June 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Rajendra Singh Gurjar	(No 3184874N now JC-490957L)	1 st June 2013
Hav	Madan Lal Yadav	(No 3185092K now JC-490958N)	1 st June 2013
Hav	Dana Ram Sewda	(No 3184780W now JC-490959W)	1 st July 2013
Hav	Rajender Singh	(No 3185342A now JC-490960L)	1 st July 2013
Hav Clk	Sunil Tomer	(No 3184166F now JC-490961N)	1 st July 2013
Hav	Dinesh Chandra	(No 3185404P now JC-490962W)	10 th July 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Gajendra Singh	(No 3185548X now JC-490963Y)	12 th July 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 June 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Nirandan Singh	(No 3187186A now JC-490964F)	1 st July 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 02 June 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Pawan Kumar	(No 3187456K now JC-490965K)	1 st July 2013
Hav	Sant Ram	(No 3186005X now JC-490966M)	1 st Aug 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 July 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Bharmal	(No 3184300F now JC-490967P)	10 th July 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 July 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Birpal Singh	(No 3183559L now JC-490968X)	1 st Aug 2013
Hav	Gaje Singh	(No 3185599L now JC-490969A)	1 st Aug 2013
Hav	Chandra Pal	(No 3186074N now JC-490970P)	17 th Aug 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 July 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Sukha Ram Khurkhuriya	(No 3186128K now JC-490971X)	1 st Aug 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 July 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Sanwar Mal Khokhar	(No 3186282H now JC-490972A)	1 st Aug 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 July 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Sanjay Kumar	(No 3203061P now JC-490973H)	14 th Aug 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 08 July 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Mahendra Singh	(No 3185256P now JC-490974L)	20 th Aug 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Manohar Lal	(No 3184067Y now JC-490975N)	1 st Aug 2013
Hav	Subhash Chander	(No 3185102H now JC-490976W)	4 th Aug 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Sobhash Chander	(No 3185246L now JC-490977Y)	8 th Aug 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Suresh Kumar	(No 3186328A now JC-490978F)	1 st Aug 2013
Hav	Ashok Kumar	(No 3186399F now JC-490979K)	22 nd Aug 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Randhir Singh Budania	(No 3186427H now JC-490980Y)	1 st Aug 2013
Hav	Ajit Singh	(No 3185142K now JC-490981F)	1 st Sep 2013
Hav	Subhash	(No 3185255M now JC-490982K)	2 nd Sep 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Sep 2013 without effect on pay & allowances.			

Hav	Devendra Kumar	(No 3186475H now JC-490983M)	1 st Sep 2013
Hav Clk	Rajender Singh Lamba	(No 3184220K now JC-490984P)	1 st Aug 2013
Hav	Amol Kumar	(No 3196331N now JC-490985X)	1 st Aug 2013
Hav	Divan Singh	(No 3185946Y now JC-490986A)	12 th Sep 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 21 Aug 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Parmeshwar Singh	(No 3184617W now JC-490987H)	1 st Sep 2013
Hav	Sunil Kumar	(No 3185007W now JC-490988L)	3 rd Sep 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Sep 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Gaja Nand	(No 4075818P now JC-490989N)	1 st Sep 2013
Hav	Birendra Singh	(No 3185080P now JC-490990H)	1 st Sep 2013
Hav	Ramu Ram	(No 3186056L now JC-490991L)	1 st Sep 2013
Hav	Rajvir Singh Raiya	(No 3185788P now JC-490992N)	1 st Oct 2013
Hav	Jai Pal Singh	(No 3184673P now JC-490993W)	1 st Oct 2013
Hav	Ratan Lal Dudi	(No 3185313L now JC-490994Y)	1 st Oct 2013
Hav	Hariom Singh	(No 3199371A now JC-490995F)	3 rd Oct 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Mahabir Singh	(No 3186221L now JC-490996K)	1 st Oct 2013
Hav	Nem Singh	(No 3185119W now JC-490997M)	1 st Oct 2013
Hav	Rajesh Kumar Singh	(No 3186562W now JC-490998P)	1 st Oct 2013
Hav Clk	Hukam Singh	(No 3184334P now JC-490999X)	1 st Oct 2013
Hav Clk	Nand Lal	(No 3184347M now JC-491000Y)	1 st Oct 2013
Hav Clk	Ram Kumar Nadar	(No 3184360W now JC-491001F)	1 st Oct 2013
Hav	Dharm Singh Panghal	(No 3187554K now JC-491002K)	16 th Oct 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Sep 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Vijay Kumar	(No 3185289A now JC-491003M)	15 th Nov 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 25 Sep 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Vikram Singh Verma	(No 3185198W now JC-491004P)	19 th Nov 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Manoj Kumar	(No 3184428M now JC-491005X)	29 th Nov 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Jagdish Kumar	(No 3184441W now JC-491006A)	29 th Nov 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Mahendar Kumar Meel	(No 3184451A now JC-491007H)	29 th Nov 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Dana Ram	(No 3184481X now JC-491008L)	29 th Nov 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Mukesh, SM	(No 3185907A now JC-491009N)	1 st Nov 2013
Hav	Indraj Singh	(No 3184748F now JC-491010H)	1 st Nov 2013
Hav	Rambir Singh Malik	(No 4076061K now JC-491011L)	20 th Dec 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Ashok Kumar	(No 3189039W now JC-491012N)	1 st Nov 2013
Hav	Daya Ram	(No 3184340H now JC-491013W)	1 st Dec 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2013 without effect on pay & allowances.			

Hav	Om Prakash Mahala	(No 3185668W now JC-491014Y)	1 st Nov 2013
Hav	Roop Singh	(No 3185702L now JC-491015F)	1 st Nov 2013
Hav	Raj Kumar	(No 3184666Y now JC-491016K)	1 st Dec 2013*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2013 without effect on pay & allowances.			
Hav	Jagdish Prasad	(No 3187519F now JC-491017M)	1 st Nov 2013
Hav	Sukh Lal Gora	(No 3187538M now JC-491018P)	1 st Nov 2013
Hav	Ajit Singh	(No 3185290P now JC-491019X)	1 st Dec 2013
Hav	Ranveer Singh	(No 3185151L now JC-491020M)	1 st Dec 2013
Hav	Hans Raj	(No 3184978P now JC-491021P)	1 st Dec 2013
Hav	Shubh Karan	(No 3186187W now JC-491022X)	1 st Dec 2013
Hav	Fateh Singh	(No 3185506L now JC-491023A)	1 st Dec 2013
Hav	Rajesh Kumar Rahar	(No 3186176K now JC-491024H)	1 st Dec 2013
Hav Clk	Ramesh Saikia	(No 3184525K now JC-491025L)	1 st Dec 2013
Hav Clk	Devendra Singh	(No 3184565L now JC-491026N)	1 st Dec 2013
Hav Clk	Lachchhi Ram Chahar	(No 3184585Y now JC-491027W)	1 st Dec 2013

V N RAVEENDRAN
Under Secy.

No. 266, dated 11th November 2014—The President is pleased to make the following promotions:-

REGULAR ARMY
ARMY POSTAL SERVICE CORPS

TO BE SUB/CLK (SD)				
1.	Nb Sub/Clk (SD)	Krishan Kumar	JC-834911K	05 Aug 2013*
*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 13 without effect on pay & allowances)				
2.	Nb Sub/Clk (SD)	Khushal Singh Danu	JC-834913P	12 Aug 2013*
*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 13 without effect on pay & allowances)				
3.	Nb Sub/Clk (SD)	Harendra Pal Singh	JC-834943M	19 Aug 2013*
4.	Nb Sub/Clk (SD)	Tarseem Lal	JC-834944P	04 Sep 2013*
*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 13 without effect on pay & allowances)				
5.	Nb Sub/Clk (SD)	Rajendra Kumar	JC-834945X	01 Oct 2013
6.	Nb Sub/Clk (SD)	Badri Prasad	JC-834946A	01 Oct 2013
7.	Nb Sub/Clk (SD)	Ravinder Singh	JC-834947H	07 Oct 2013*
8.	Nb Sub/Clk (SD)	Ratan Singh Verma	JC-834948L	17 Oct 2013*
*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 13 without effect on pay & allowances)				
9.	Nb Sub/Clk (SD)	Prem Shankar Singh	JC-834950H	01 Nov 2013
10.	Nb Sub/Clk (SD)	Pradeep Singh	JC-834951L	06 Nov 2013*
*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 13 without effect on pay & allowances)				

WARRANT OFFICERs TO BE NB SUB

1.	WO	Vipin Prasad Bhatt	(No 8376551P)	now JC-835134Y)	13 Mar 14*
2.	WO	Gurpreet Singh	(No 8375767K)	now JC-835135F)	27 Feb 14*
3.	WO	Girish Joshi	(No 8375820K)	now JC-835136K)	21 Feb 14*
4.	WO	L Srinivasa Rao	(No 8376097A)	now JC-835137M)	24 Feb 14*

5.	WO	Monu Kumar	(No 8376259A	now JC-835138P)	03 Mar 14*
6.	WO	Sunish Guleria	(No 8376266W	now JC-835139X)	12 Mar 14*
7.	WO	Vinod Kumar	(No 8376269K	now JC-835140M)	25 Feb 14*
8.	WO	Sanjeev Kumar	(No 8376270Y	now JC-835141P)	26 Feb 14*
9.	WO	Vikas Guletia	(No 8376271F	now JC-835142X)	19 Mar 14*
10.	WO	Ramesh Chand	(No 8376274P	now JC-835143A)	08 Mar 14*
11.	WO	Jadhav Abhay Kumar H Rao	(No 8376292X	now JC-835144H)	10 Apr 14*
12.	WO	Manoj Kumar	(No 8376303Y	now JC-835145L)	06 Mar 14*
13.	WO	Prince Prakash	(No 8376310P	now JC-835146N)	18 Mar 14*
14.	WO	Yogender Singh	(No 8376312A	now JC-835147W)	02 Apr 14*
15.	WO	Chakrapani TS	(No 8376335F	now JC-835148Y)	20 May 14*
* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Sep 13)					
16.	WO	Prem Singh	(No 8373965W	now JC-835149F)	28 Feb 14*
17.	WO	N Baba Kishore	(No 8374249X	now JC-835150W)	12 Apr 14*
* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Sep 13)					
18.	WO	Jasvir Singh	(No 8374680W	now JC-835151Y)	24 Feb 14*
19.	WO	Alok Kumar	(No 8375627X	now JC-835152F)	24 Mar 14*
20.	WO	E Sarath Babu	(No 8375694H	now JC-835153K)	24 Feb 14*
21.	WO	TR Vijeshraj	(No 8375732N	now JC-835154M)	28 Feb 14*
22.	WO	Aman Mehta	(No 8375770K	now JC-835155P)	21 Feb 14*
* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 13)					

R P S NEGI
Under Secy

ARMY BRANCH
REGULAR ARMY
INFANTRY
THE JAT REGIMENT
CORRIGENDUM

No. 267, dated 12th November 2014—In the Government of India, Ministry of Defence, Notification No 331 dated 07 May 2009 published in the Gazette of India Serial No 23 dated 06 June 2009 under heading “Regular Army” sub heading “THE JAT REGIMENT” is hereby amended as under :-

To be Nb Sub

For

Hav Jai Karan Singh (No 3177350K now JC-490365F) 8th Nov 2008*

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2008 without effect on pay & allowances.

Read

Hav Jai Karan Singh (No 3177350K now JC-490365F) 8th Nov 2008*

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 2007 without effect on pay & allowances.

VN RAVEENDRAN
Under Secy

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in